



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान  
जोधपुर, राजस्थान



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 28-09-2021

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-09-28 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-09-29	2021-09-30	2021-10-01	2021-10-02	2021-10-03
वर्षा (मिमी)	4.0	0.0	1.0	7.0	9.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	34.0	34.0	34.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	26.0	25.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	67	69	67	64	61
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	42	42	41	46	41
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	12.0	14.0	9.0	13.0	14.0
पवन दिशा (डिग्री)	76	113	207	239	240
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	6	6	5	4

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आने वाले पांच दिनों में आसमान में बादल छाये रहने के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की सम्भावना है। अधिकतम तापमान 34.0 से 35.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25.0 से 26.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

### सामान्य सलाहकार:

बाजरे की फसल अभी पकाव की ओर अग्रसर है अतः उचित कायिक पकाव पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करे। खेत में कटाई की हुई फसल को ढेर बनाकर प्लास्टिक से ढक कर रखें।

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की सम्भावना को देखते हुए कटाई की हुई फसल को ढेर बनाकर तिरपाल से ढक कर रखें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	मूँग की फसल पकाव की ओर अग्रसर है उचित पकाव अवस्था पर फसल की कटाई करें।
रेंडी	अरण्डी की फसल में तना छेदक के नियंत्रण के लिए क्यूनालफॉस 25 ई.सी. 1 लीटर का प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
कपास	देशी कपास में फूल व टिण्डे गिरने की समस्या से बचाने के लिए एसीमोन @ 2.5 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर पहला छिड़काव कलियां बनते समय व दूसरा टिण्डों के बनते ही करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	शीतकालीन टमाटर की फसल के लिए नर्सरी तैयार करें। पूसा रूबी, पूसा-120, अर्का विकास, सोनाली, पूसा हाइब्रिड-1 पूसा हाइब्रिड-2 व पंत बहार उन्नत किस्मों की बुवाई करें। 400-500 ग्राम बीज प्रति हैक्टेयर के लिए उपयुक्त है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेड़	भेड़ व बकरी को पी.पी.आर, फड़किया व चेचक रोग के प्रति टीके लगवाएं।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	तारामीरा की आर.एम.टी-314 किस्म की बुवाई करें। बुवाई के समय 30 किलो नत्रजन व 15 किलो फास्फोरस प्रति हैक्टेयर की दर से दें। प्रति हैक्टेयर के लिए 5 किलो बीज उपयुक्त है तथा 2.5 ग्राम मैन्कोजेब से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। दीमक की रोकथाम के लिए अन्तिम जुताई के समय क्युनालफास 1.5 प्रतिशत प्रति हैक्टेयर में डालें।